

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 3—जनवरी 9, 2015 (पौष 13, 1936)

No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 3—JANUARY 9, 2015 (PAUSA 13, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 04 दिसम्बर 2014

सं. डीपी/पर्स.1/2014/4651/3/85/2012—श्री रणजीत सिन्हा, भा.पु. सेवा (बीएच : 1974) ने अधिवर्षिता पर एवं दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) में निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति के उपरांत दिनांक 02.12.2014 के अपराह्न से निदेशक, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) का पदभार त्याग दिया है।

दीपिका सूरी

उप निदेशक (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स.1/2014/4645/3/59/2013—राष्ट्रपति, श्री अनिल कुमार सिन्हा, भा.पु.सेवा (बीएच : 1979) को दिनांक 03.12.2014 के पूर्वाह्न से 02.12.2016 तक दो वर्षों की अवधि के लिए निदेशक, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

दीपिका सूरी

उप निदेशक (कार्मिक)

दिनांक 12 दिसम्बर 2014

शुद्धि पत्र

सं. डीपीपर्स.(एम)/2014/4555/ए-34012/12/2014—श्री पी. कंडास्वामी, अपराध सहायक के कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अधिसूचना दिनांक 25-11-2014 में '31.12.2013' के स्थान पर '31.12.2012' पढ़ी जाए।

दीपिका सूरी
उप निदेशक (कार्मिक)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 दिसम्बर 2014

सं. डीपीपर्स-I-2014/4753/3/2/85—श्री आर. सौंदरराजन, उप-विधि सलाहकार क.अ.ब्यूरो, मुंबई जोन ने अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर दिनांक 30.09.2014 के अपराह्न से उप-विधि सलाहकार, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

पी. सिंह
प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपीपर्स-I-2014/4754/3/9/89—श्री के. सुधाकर, अपर विधि सलाहकार, के.अ.ब्यूरो, एसटीएफ, नई दिल्ली ने अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर दिनांक 31.10.2014 के अपराह्न से अपर विधि सलाहकार, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

डी.पी. सिंह
प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपीपर्स-I-2014/4755/3/10/89—श्री मोहिंदर सिंह, अपर विधि सलाहकार, के.अ.ब्यूरो, एसटीएफ, नई दिल्ली ने अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर, दिनांक 30.11.2014 के अपराह्न से अपर विधि सलाहकार के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

डी.पी. सिंह
प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपीपर्स.I/2014/4756/3/53/95—श्री पार्थ तपस्वी, अपर विधि सलाहकार, के.अ.ब्यूरो, बीएसएंडएफसी, नई दिल्ली ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर दिनांक 28.11.2014 के पूर्वाह्न से अपर विधि सलाहकार के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

डी.पी. सिंह
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली — 110003, दिनांक 09 सितम्बर 2014

संख्या-डी.पॉच-1/2014-कार्मिक(स0क0)—सरकारी सेवा से त्याग-पत्र वापस लेने संबंधी अनुरोध के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप इस बल के श्री विवेक सारस्वत, सहायक कमाण्डेंट (आई0आर0एल0ए0-7196), ने दिनांक 25/07/2014 (पूर्वाह्न) को गुप केन्द्र के0रि0पु0बल, बनतलाब में रिपोर्ट किया तथा अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया। तदनुसार, उन्हें उसी तिथि अर्थात् दिनांक 25/07/2014 (पूर्वाह्न) से इस बल की नफरी में शामिल किया जाता है।

एम.सी. पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक(कार्मिक)

दिनांक 22 सितम्बर 2014

संख्या : ए.छ:-1/2014-कार्मिक(स0क0)—सिविल सर्विसेस परीक्षा-2013 के माध्यम से इंडियन कस्टम एवं एक्साईज सेवा में गुप-“ए” पद पर चयन होने तथा केरिपुबल की सेवाओं से उनका तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप, इस बल के श्री चवन स्वच्छंद उत्तमराव, सहायक कमान्डेंट (आई0आर0एल0ए0-10091), डी.ए.जी.ओ-45(ए) बैच ने दिनांक 09/09/2014(अप0) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया । तदनुसार उन्हें दिनांक 09/09/2014(अप0) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

एम.सी. पँवार
पुलिस उप महानिरीक्षक(कार्मिक)

दिनांक 09 अक्टूबर 2014

संख्या : ए.छ:-1/2014-कार्मिक(स0कमा0)—राष्ट्रपति जी, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सी.ए.पी.एफ.(सहायक कमान्डेंट) परीक्षा-2012 के निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपये 15,600-39,100/- ग्रेड वेतन रुपये 5,400/- में सहायक कमान्डेंट के पद पर बल की समग्र नफरी में, अगले आदेश तक अस्थाई तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	रॉल नं0	अभ्यर्थी का नाम	रिपोर्ट करने की तिथि
1.	128529	श्री सी0 कानन	24/08/14 (पूर्वार्ध)
2.	193152	श्री नवीश कुमार	25/08/14 (पूर्वार्ध)
3.	256901	श्री अवनेश कुमार निगम	25/08/14 (पूर्वार्ध)
4.	039545	श्री अविनाश त्रिपाठी	25/08/14 (पूर्वार्ध)
5.	145889	श्री राकेश कुमार	25/08/14 (अपरार्ध)
6.	174783	श्री संदीप कुमार हाती	25/08/14 (अपरार्ध)
7.	101925	श्री एम0 जमीर	25/08/14 (अपरार्ध)
8.	035651	कुमारी पारूल	25/08/14 (अपरार्ध)
9.	067016	श्री विकास सिंह	25/08/14 (अपरार्ध)
10.	132838	श्री शशांक डोंगरे	26/08/14 (पूर्वार्ध)
11.	028164	श्री मो0 असलम एस0	26/08/14 (पूर्वार्ध)
12.	032703	श्री सतेन्द्र प्रताप सिंह	26/08/14 (अपरार्ध)
13.	165356	श्री खेतेस्वर चौधरी	26/08/14 (अपरार्ध)
14.	005152	श्री साहिल चौधरी	27/08/14 (पूर्वार्ध)
15.	136859	श्री मितेश जैन	27/08/14 (पूर्वार्ध)
16.	066601	श्री प्रतीक गुलिया	27/08/14 (पूर्वार्ध)
17.	207402	श्री सुरेश चन्द यादव	27/08/14 (पूर्वार्ध)
18.	019551	श्री के0 सारंग विनायकराव	27/08/14 (पूर्वार्ध)
19.	103532	श्री आशीष कुमार पटेल	27/08/14 (अपरार्ध)
20.	025707	श्री अंकुश चौहान	27/08/14 (अपरार्ध)
21.	030099	श्री भूषण उइके	27/08/14 (अपरार्ध)
22.	004215	श्री जी0 राकेश निर्मल	27/08/14 (अपरार्ध)
23.	028622	श्री मधुसूदन	28/08/14 (पूर्वार्ध)

क्र. सं.	रॉल नं०	अभ्यर्थी का नाम	रिपोर्ट करने की तिथि
24.	237088	श्री सौरभ कुमार वर्मा	28/08/14 (पूर्वान्ह)
25.	051214	श्री विनय नायक आर	28/08/14 (पूर्वान्ह)
26.	112285	श्री अवधेश कुमार सिंह	28/08/14 (पूर्वान्ह)
27.	189464	श्री अभिषेक कुमार द्विवेदी	28/08/14 (पूर्वान्ह)
28.	233243	श्री पदीप टी०	28/08/14 (पूर्वान्ह)
29.	067174	श्री गोकुल कुमार के.	28/08/14 (अपरान्ह)
30.	101691	श्री पी० अथंगो ओड्यू	28/08/14 (अपरान्ह)
31.	016077	श्री निर्मल कुमार	28/08/14 (अपरान्ह)
32.	159410	श्री हिमांशु नेगी	28/08/14 (अपरान्ह)
33.	086379	श्री इनोका के० जिमोमी	28/08/14 (अपरान्ह)
34.	012206	श्री सिबी सूधन ई०आर०	30/08/14 (अपरान्ह)
35.	075937	श्री टी०पी० लूफेंग	18/09/14 (अपरान्ह)

2. उक्त अभ्यर्थियों ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अकादमी, कादरपुर (गुडगांव) में प्रशिक्षण के लिए उनके नामों के समक्ष दर्शाई गई तिथि को रिपोर्ट कर दिये हैं तथा उनके द्वारा उसी तिथि से पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

एम. सी. पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 13 नवम्बर 2014

संख्या—डी.पॉच—1/2014—कार्मिक(स०क०)—सरकारी सेवा से त्याग—पत्र देने संबंधी नोटिस दिनांक 17/06/2014 स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री संतोष कुमार, सहायक कमाण्डेंट (आई०आर०एल०ए०—7034), 136 बटालियन, के०रि०पु०बल ने दिनांक 31/10/2014 (अप०) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार, उन्हें दिनांक 31/10/2014 (अप०) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

एम. सी. पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक(कार्मिक)

दिनांक 11 दिसम्बर 2014

संख्या—डी.पॉच—1/2014—कार्मिक(स०क०)—सरकारी सेवा से त्याग—पत्र देने संबंधी नोटिस दिनांक 15/10/2014 स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री हिमांशु नेगी, सहायक कमाण्डेंट (प्रशिक्षु) (आई०आर०एल०ए०—10406), डी.ए.जी.ओ—46(बी) बैच, के०रि०पु०बल ने दिनांक 01/12/2014 (अप०) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार, उन्हें दिनांक 01/12/2014 (अप०) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

एम.सी. पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक(कार्मिक)

संख्या—डी.पॉच—1/2014—कार्मिक(स०क०)—सरकारी सेवा से त्याग—पत्र देने संबंधी नोटिस दिनांक 26/07/2014 स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री राजन चौधरी, सहायक कमान्डेन्ट(प्रशिक्षु) (आई०आर०एल०ए०—10216) डी.ए.जी.ओ—45(बी) बैच, के०रि०पु०बल ने दिनांक 30/09/2014 (अप०) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार, उन्हें दिनांक 30/09/2014 (अप०) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

एम. सी. पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक(कार्मिक)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान
जयपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2014

सं.: प्रशा.-II/गजट नोटिफिकेशन/आर-12063/122/2014/डी 58—निम्नलिखित समूह 'ब' राजपत्रित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से अधिवार्षिकी पर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं:

सर्वश्री

1. के. थॉमस
वरिष्ठ निजी सचिव

30.11.2014 (अपरान्ह) से अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त

ह./— अपठनीय
उप महालेखाकार (प्रशासन)

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 15 दिसम्बर 2014

सं.ए-19024/8/2014-प्रशा.I : विभागीय प्रोन्नति समिति (ग्रुप बी) की सिफारिशों पर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से श्री आर.यू. रॉय को वेतन बैंड-2 (रुपये 9300—34800/-) + ग्रेड रुपये पे 4200/- में दिनांक 01.12.2014 (पूर्वाह्न) से विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, कोलकाता में, अगले आदेशों तक, वरिष्ठ रसायनज्ञ के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एल. अनंत
अवर सचिव

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400 085, दिनांक 11 दिसम्बर 2014

सं. पीडी/93/अधि/स्थापना/I & II—निम्नलिखित कैंडर तालिका में कॉलम-2 पर दर्शाए गए अधिकारियों द्वारा नामों के सामने कॉलम-3 पर दर्शाए गए पद, कॉलम-4 पद दर्शाई गई तारीखों को कॉलम-5 पद दर्शाई गई घटना के आधार पर अधिकारियों द्वारा धारित पदों का कार्यभार त्याग किया गया है।

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	कार्यभार त्यागने का	पदत्याग करने की तारीख	घटना
1.	श्री तल्लाप्रगडा सूर्यनारायणा मूर्ति	वै. अ/ई	07/10/2014	मृत्यु
2.	श्री नंदन झा	वै. अ/सी	19/11/2014 (अप)	त्यागपत्र
3.	डॉ. रत्नाकर के कुलकर्णी	वै. अ/एच	30/11/2014 (अप)	अधिवर्षिता
4.	डॉ. व्ही रामचंद्रन	वै. अ/जी	30/11/2014 (अप)	अधिवर्षिता
5.	श्री एन बी खेडेकर	वै. अ/ई	30/11/2014 (अप)	अधिवर्षिता
6.	श्री हरविंदरपाल सिंह	वै. अ/एच +	30/11/2014 (अप)	अधिवर्षिता

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	कार्यभार त्यागने का	पदत्याग करने की तारीख	घटना
7.	श्री के के अब्दुल्ला	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	30/11/2014 (अप)	अधिवर्षिता
8.	डॉ. ललित मोहन गंतायत	विशिष्ट वैज्ञानिक	30/11/2014 (अप)	सेवा अवधि में चार वर्ष विस्तार के बाद सेवानिवृत्ति
9.	श्री जोस पी गर्वासीस	वै. अ/एच +	30/11/2014 (अप)	अधिवर्षिता
10.	श्री संदीप कुमार घोष	विशिष्ट वैज्ञानिक	30/11/2014 (अप)	सेवा अवधि में चार वर्ष विस्तार के बाद सेवानिवृत्ति
11.	डॉ विनोद कुमार सुरी	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	30/11/2014 (अप)	सेवा अवधि में चार वर्ष विस्तार के बाद सेवानिवृत्ति
12.	श्री पी शंकरनकुट्टी	वै. अ/जी	30/11/2014 (अप)	अधिवर्षिता
13.	श्री राजा राम सिंह यादव	विशिष्ट वैज्ञानिक	30/11/2014 (अप)	सेवा अवधि में दो वर्ष विस्तार के बाद सेवानिवृत्ति
14.	श्री अनिलकुमार तैप्पोक्कत विजयन	वै. अ/जी	30/11/2014 (अप)	अधिवर्षिता

एच. मिश्रा
नियंत्रक

सं. पीडी/93/अधि/स्थापना/I & II—निम्नलिखित तालिका में कॉलम-2 पर दर्शाए गए अधिकारियों द्वारा नामों के सामने कॉलम-3 पर दर्शाए गए पद, कॉलम-4 पद दर्शाई गई तारीखों को, कॉलम-5 पद दर्शाई गई घटना के आधार पर अधिकारियों द्वारा धारित पदों का कार्यभार त्याग किया गया है।

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	कार्यभार त्यागने का	पदत्याग करने की तारीख	घटना
1.	श्री पी व्ही श्रीधरन	वरिष्ठ निजी सचिव	30/11/2014 (अप)	अधिवर्षिता
2.	श्रीमती इंदिरा बी प्रकाश	वरिष्ठ निजी सचिव	30/11/2014 (अप)	अधिवर्षिता
3.	श्रीमती मीरा अनंथन	वरिष्ठ निजी सचिव	30/11/2014 (अप)	अधिवर्षिता
4.	श्रीमती गीता पी वैद्य	वरिष्ठ निजी सचिव	30/11/2014 (अप)	अधिवर्षिता

एच. मिश्रा
नियंत्रक

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई - 400 001, दिनांक 2 दिसम्बर 2014

सं. 6(2682)/2014-प्रशा./ 15175—अपर सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा भारी पानी संयंत्र, (मणुगुरु) के सहायक कार्मिक अधिकारी, [रु 9,300—34,800/- (पीबी-2) और ग्रेड वेतन रु 4,800/-] श्री अभिलाष किडावे, को दिनांक 03 नवम्बर 2014 के पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई में अनुभाग अधिकारी [रु 9,300—34,800/- (पीबी-2) और ग्रेड वेतन रु 4,800/-] के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. पी. एस. पिल्लै
अवर सचिव

क्रय और भंडार निदेशालय

मुंबई—400 094, दिनांक 3 दिसम्बर 2014

सं. क्रभनि/07011/भर्ती/4420—निदेशक, क्रय और भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, की श्री संजय डी. पाटील, वरिष्ठ क्रय सहायक (वेतन बैंड—2, रु. 9,300—34,800/— + ग्रेड वेतन रु. 4,200/—), केंद्रीय क्रय एकक, क्रभनि, मुंबई को दिनांक 20 नवम्बर, 2014 के पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक उसी एकक में सहायक क्रय अधिकारी (वेतन बैंड—2, 9,300—34,800/— + ग्रेड वेतन रु. 4,800/—), के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. वाय. कांबले
प्रशासन अधिकारी—III

सं. क्रभनि/07011/भर्ती/4425—निदेशक, क्रय और भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, की श्रीमती शोभना रामन, वरिष्ठ क्रय सहायक (वेतन बैंड—2, रु. 9,300—34,800/— + ग्रेड वेतन रु. 4,200/—), केंद्रीय क्रय एकक, क्रभनि, मुंबई को दिनांक 20 नवम्बर, 2014 के पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक उसी एकक में सहायक क्रय अधिकारी (वेतन बैंड—2, रु. 9,300—34,800/— + ग्रेड वेतन रु. 4,800/—), के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. वाय. कांबले
प्रशासन अधिकारी—III

सं. क्रभनि/07011/भर्ती/4430—निदेशक, क्रय और भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, की श्रीमती मागरिट एम. डी. कोस्टा, वरिष्ठ क्रय सहायक (वेतन बैंड—2, रु. 9,300—34,800/— + ग्रेड वेतन रु. 4,200/—), केंद्रीय क्रय एकक, क्रभनि, मुंबई को दिनांक 20 नवम्बर, 2014 के पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक उसी एकक में सहायक क्रय अधिकारी (वेतन बैंड—2 9,300—34,800/— + ग्रेड वेतन रु. 4,800/—), के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. वाय. कांबले
प्रशासन अधिकारी—III

सं. क्रभनि/07011/भर्ती/4433—निदेशक, क्रय और भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, की श्रीमती हर्षला डी. कोली, क्रय सहायक (वेतन बैंड—2 रु. 9,300—34,800/— + ग्रेड वेतन रु. 4,200/—), केंद्रीय क्रय एकक, क्रभनि, मुंबई को दिनांक 20 नवम्बर, 2014 के पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक उसी एकक में सहायक क्रय अधिकारी (वेतन बैंड—2 9,300—34,800/— + ग्रेड वेतन रु. 4,800/—), के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. वाय. कांबले
प्रशासन अधिकारी—III

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली—110003, दिनांक 01 सितम्बर 2014

सं. ए-32013/01/2014—स्था. II—राष्ट्रपति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर श्री मनीश कुमार निदेशक विमान सुरक्षा (तदर्थ) को दिनांक 08 अगस्त, 2014 (पूर्वाह्न) से नागर विमानन महानिदेशालय में निदेशक विमान सुरक्षा के पद पर (नियमित आधार पर) पी.बी.—4, 37,400—67,000/— रु. तथा ग्रेड वेतन 8,700/— रु. के वेतनमान में अगले आदेशों तक, नियुक्त किया जाता है।

गोपाल सिंह
उपनिदेशक प्रशासन

सं. ए-32013/10/2014-स्था. II—राष्ट्रपति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शायी गई तारीख से नियमित आधार पर निदेशक प्रचालन के पद पी.बी.-4, 37,000—67,000/— रु. तथा ग्रेड वेतन 8,700/— रु. के वेतनमान में अगले आदेशों तक, नियुक्त करते हैं:—

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. श्री भारत भूषण | 11.07.2014 (पूर्वाह्न) |
| 2. श्री दिनेश चन्द शर्मा | 11.07.2014 (पूर्वाह्न) |
| 3. श्री मनोज तुलसीराम बोकाड़े | 11.08.2014 (पूर्वाह्न) |
| 4. श्री आशुतोष वशिष्ठ | 11.08.2014 (पूर्वाह्न) |

गोपाल सिंह
उपनिदेशक प्रशासन

दिनांक 3 सितम्बर 2014

सं. ए-32013/03/2013-स्था. II—राष्ट्रपति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर तथा मंत्रीमण्डलीय नियुक्ति समिति की सहमति के आधार पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शायी गई तारीख से पी.बी.-4, 37,000—67,000/— रु. तथा ग्रेड वेतन 10,000/— रु. के वेतनमान में संयुक्त महानिदेशक के पद पर नियमित आधार पर अगले आदेशों तक, नियुक्त करते हैं:—

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. श्री अरविन्द सरदाना | 19.08.2014 (पूर्वाह्न) |
| 2. श्री ललित गुप्ता | 19.08.2014 (पूर्वाह्न) |

गोपाल सिंह
उपनिदेशक प्रशासन

दिनांक 5 सितम्बर 2014

सं. ए-32013/09/2014-स्था. II—राष्ट्रपति जी, डी जी सी ए में कार्यरत निम्नलिखित उप निदेशक प्रचालन को वेतन बैंड-4, 37,000—67,000/— रु. तथा ग्रेड वेतन 8,700/— रु. के वेतनमान में 04.09.2014 से एक वर्ष की अवधि या नियमित आधार पर पदों के भरे जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए आधार पर निदेशक प्रचालन के पद पर नियुक्त करते हैं:—

1. श्री वेद प्रकाश
2. श्री वीरेन्द्र प्रकाश सिंह

गोपाल सिंह
उपनिदेशक प्रशासन

दिनांक 25 नवम्बर 2014

सं. ए-32013/05/2014-स्था. II—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति जी, एतद्द्वारा श्रीमती सुवृता सक्सेना की नियुक्ति महानिदेशक नागर विमानन कार्यालय में पी.बी.-3, 15,600—39,100/— रु. तथा ग्रेड वेतन 7,600/— रु. के वेतनमान में तारीख 29 सितम्बर, 2014, पूर्वाह्न को तथा अगले आदेशों के होने तक नियमित आधार पर उपनिदेशक, प्रचालन के पद पर करते हैं।

गोपाल सिंह
उपनिदेशक प्रशासन

दिनांक 2 दिसम्बर 2014

सं. ए-32013/02/2014—स्था. II—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित नियमित सहायक निदेशक, विमान सुरक्षा की नियुक्ति उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से तथा अगले आदेशों के होने तक वेतन बैंड 15,600—39,100 रु. तथा ग्रेड वेतन 7,600/— रु. के वेतनमान में महानिदेशक नागर विमानन के कार्यालय में नियमित आधार पर उप निदेशक, विमान सुरक्षा के रूप में करते हैं:—

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. श्री सनीत कुमार | 25.11.2014 (पूर्वाह्न) |
| 2. श्री ए. एक्स. जोसेफ. | 24.11.2014 (पूर्वाह्न) |

गोपाल सिंह
उपनिदेशक प्रशासन

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय

कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 15 दिसम्बर 2014

सं. करं दिल्ली/560(5)/एफटीई-2011/9814—कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्न कंपनियों के नाम, कंपनियों के रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कंपनियां विघटित कर दी गयी हैं:—

क्रमांक संख्या	CIN	कंपनी नाम
1	U13203DL2011PTC228617	प्रेशियस एक्सट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2	U40102DL2006PLC154623	डी सी एम श्रीराम थर्मल एनर्जी लिमिटेड
3	U40109DL2007PLC165632	डी सी एम श्रीराम थर्मल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
4	U45207DL2008PLC180959	डी सी एम श्रीराम हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड
5	U40300DL2009PTC191273	मठियां पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
6	U51909DL2005PTC133879	तिरंगा ट्रेड एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
7	U25190DL2011PTC218280	क्रातो प्लास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
8	U52100DL2007PTC162123	मेगना रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
9	U51909DL2011PTC228889	ट्रांसरीजन्स के के प्राइवेट लिमिटेड
10	U45200DL2012PTC243498	असान इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
11	U74140DL2011PTC216836	वी के रेसोर्सिंग सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
12	U92490HR2011PTC043078	प्रोफेशनल बिजनेस राइट्स प्राइवेट लिमिटेड
13	U51433DL2005PTC143373	सी वाई पोल्यमेर्स प्राइवेट लिमिटेड
14	U45201DL2008PTC184418	एस सी टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
15	U45200DL2012PTC236113	आरती के इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
16	U74120DL2008PTC175878	सनरी हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड
17	U55101DL2013PTC259230	त्रिवोली होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
18	U74900DL2009PTC190775	डाटावर्क्स ट्रेवल एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
19	U74899DL1989PTC036668	ओमनी लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड
20	U85191DL2006PTC151440	ऐ-वन फूमिगेशन एंड डिसइंफेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
21	U70200DL2011PTC218118	इन्वेस्टर्स क्लिनिक इंटीरियर्स सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
22	U72200DL1996PTC080308	यू पी एल सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

क्रमांक संख्या	CIN	कंपनी नाम
23	U74899DL1988PTC032307	एडहार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
24	U55101DL2011PTC218121	टल्ली एंटरटेनमेंट क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड
25	U45400DL2007PTC168910	बिर्च बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड
26	U72200DL2007PTC157752	डिजिटल इ पाठशाला प्राइवेट लिमिटेड
27	U92142DL2008PTC179525	ट्राम डीजाइन स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड
28	U67190DL2013PTC250155	श्री लीला इन्वेस्टमेंट एड्वाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
29	U45400DL2007PTC162313	पिक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
30	U36996DL2008PTC174912	डी. के. आर. जी. जेवेलर्स प्राइवेट लिमिटेड
31	U74140DL2008PTC182481	एक्सेल इन्शुरन्स आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड
32	U36996DL2008PTC174965	एच आर पी सी जेवेलर्स प्राइवेट लिमिटेड
33	U51909DL2009PTC195616	ग्रीन शूट्स ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
34	U51900DL2011PTC212928	एनरो इंटर प्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
35	U15549DL2011PTC218984	पीपा फूड्स एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड
36	U34300DL1999PTC102540	सभरवाल इंटर प्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
37	U92419DL2008PTC177831	मैजिक गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड
38	U70101DL1997PTC085888	चन्दर घनतेती प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
39	U74999DL2011PTC212492	स्पेशलिटीएस ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
40	U51909DL2003PLC122932	वर्ल्डवाइड इम्पेक्स लिमिटेड
41	U24239DL2003PTC121290	सोना आयुर्वेदिक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
42	U72300DL2007PTC171842	ए वी एस इफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
43	U74899DL1981PTC012264	मंजुल इंटर प्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
44	U51909DL2002PTC114381	एक्सट्रीम मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
45	U72300DL2010PTC209092	स्टेप वन इनफार्मेशन सर्विसस प्राइवेट लिमिटेड
46	U45204DL2009PTC190914	एस डी एस प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
47	U72900DL2009PTC190303	तरच्या सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
48	U74140DL2010PTC211006	कीस्टोन फॉरेंसिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
49	U51103DL2012PTC234920	एमी डोन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
50	U29248DL2008PTC177545	कैप्टेल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
51	U93000HR2008PTC038548	अरी ट्रांसलेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
52	U70200DL2012PTC236730	आइसबर्ग्स एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
53	U70200DL2012PTC236681	अल्टीमेट बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड
54	U74140DL2008PTC173332	इस सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
55	U70109DL2010PTC205710	सागरसाक्षी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
56	U85100DL2008PTC181485	स्टार हेल्थ वीकेशंस एंड हेल्थ ट्रेवलस प्राइवेट लिमिटेड
57	U72200DL2002PTC116737	सुपर सेवन ऑय टी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
58	U74899DL1994PTC063796	स्टूडियो क्रियेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
59	U74999DL2007PTC159852	इकिता कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
60	U51909DL2011PTC217458	भानु फैशंस प्राइवेट लिमिटेड
61	U45400HR2007PTC037060	इकिता एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
62	U63000DL2013PTC253012	एन्जॉय टू ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड

क्रमांक संख्या	CIN	कंपनी नाम
63	U74999DL2013PTC255971	मिर्ची इन्फोटेनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
64	U85200DL2013PTC257875	वेटकेम फार्मासुटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
65	U15549DL2011PTC213865	डेसीन फूड्स एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड
66	U74899DL1987PTC029442	रोहिणी डाईंग प्राइवेट लिमिटेड
67	U74900DL2009PTC193816	के के एम सोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
68	U15490DL2013PTC247411	ऐ के बेहेरा बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड
69	U74999DL2010PTC207411	भोमिया बैंगल्स एंड जेवेलर्स प्राइवेट लिमिटेड
70	U80902DL2007PTC170965	बी एंड वी एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड
71	U70101HR2010PTC041483	अदिति सुपरस्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
72	U64201DL2000PTC106987	अल्टरनेटिव सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
73	U72900DL2012PTC237613	सोफ्टमैक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
74	U72900DL2011PTC214224	आर पी एम डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड
75	U45300DL2011PTC228031	राजश्री बिल्ड्वेल्ल प्राइवेट लिमिटेड
76	U74899DL1984PTC018108	टोकोमा ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
77	U92120DL2005PTC140045	एसक्वियर स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड
78	U74120DL2009PTC186870	पायनियर कोचिंग इंस्टिट्यूट प्राइवेट लिमिटेड
79	U55209DL2011PTC212738	डी एस आर टी पैलेस प्राइवेट लिमिटेड
80	U52590HR2011PTC043983	रियल शोर सक्सेस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
81	U74899DL1997PTC091360	यू एस डी वेल्ड प्राइवेट लिमिटेड
82	U31900HR2012PTC047145	शोलिफन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
83	U74140DL2013PTC262385	एम वी डी टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
84	U55101DL2004PTC126054	बीनेता हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
85	U63013DL2014PTC266572	स्काईरीच फ्रेट प्राइवेट लिमिटेड
86	U74899DL2001PTC109239	ई सी एक्सपर्ट इंडिया सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
87	U63040DL2010PTC200226	कारवां ट्रेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
88	U55101DL2004PTC128106	शिवामिका इन्स प्राइवेट लिमिटेड
89	U67120DL2011PTC219072	के एस स्टॉक ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड
90	U45200DL1996PTC082814	मारू प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
91	U74140DL2003PTC119757	प्रेतजलोगिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
92	U74999DL2012PTC246614	भसीन एच आर सोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
93	U45400DL2013PTC247930	एक्सट्रीम होम सोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
94	U74999HR2011PTC044506	क्लॉस एच आर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
95	U70101DL1996PTC076949	इमेज एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
96	U74899DL1987PTC028361	सारा कैम सर्फैक्टान्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
97	U51909DL2011PTC228889	ट्रांसरीजन्स के के प्राइवेट लिमिटेड
98	U17121DL2008PTC173402	सायरा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
99	U18101DL2006PTC149080	ओरिएंट अट्टायरस प्राइवेट लिमिटेड
100	U74899DL1989PTC037044	ऑय डी फैशंस प्राइवेट लिमिटेड
101	U31900DL2011PTC228435	प्लाजा एनेर पैक प्राइवेट लिमिटेड
102	U50101DL2004PTC124273	एम जी एफ़ ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रमांक संख्या	CIN	कंपनी नाम
103	U17291DL2007PTC163933	अनेजा स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
104	U74999DL2011PTC226626	इन्ऐट प्लेस मेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
105	U74999DL1997PTC084954	डी एन एम स्टूटेजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
106	U74140DL2013PTC257164	ओ एस आर इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
107	U52590HR2011PTC043983	रियल शोर सक्सेस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
108	U11100DL2008PTC175327	स्पाइस एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
109	U74999HR2011FTC042437	एमस्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
110	U74120DL2008PTC175878	सनरी हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड
111	U34300DL2004PTC129007	सत्यम स्पेयर पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
112	U72200DL2012PTC242933	आर एस ए ऑय टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
113	U51909DL2010PTC207924	प्रिसिशन ब्राडकास्टिंग एंड टेलीकम्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
114	U63040DL2010PTC206080	एक्सालाइफ जर्नीज प्राइवेट लिमिटेड
115	U72200DL2012PTC244934	मेनोमैन सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
116	U74899DL1991PTC043316	बी ऑय पी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
117	U29000DL2005PTC139908	डिलाइट ऑनलाइन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
118	U24100DL2010PTC197988	इंडो एशियन पेट्रोलियम्स प्राइवेट लिमिटेड
119	U34300HR2010PTC041059	इस एन जी ऑटोमो टीव्स प्राइवेट लिमिटेड
120	U72400DL2008PTC175193	गोल अचीवर्स हाइटेक प्राइवेट लिमिटेड
121	U17291DL2007PTC170621	अनिकों क्लोथिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
122	U70109DL2011PLC212762	भारती लैंड प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड
123	U63040DL2005PTC137730	मितवा टूर एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
124	U74120DL2008PTC185272	ऑडमस फाइनेंसियल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
125	U26900DL2014PTC263700	युरोपा मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड
126	U74999DL1991PLC043983	शरोमा टूल्स लिमिटेड
127	U72400DL2008PTC175193	गोल अचीवर्स हाइटेक प्राइवेट लिमिटेड
128	U80301DL2002PTC117238	टर्निंग पॉइंट एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
129	U32204DL2006PTC152866	इमेज टेलीकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
130	U55101DL2012PTC246201	बी. बार मुंबई प्राइवेट लिमिटेड
131	U01122DL1996PLC077175	कान्फ्रा एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड
132	U18101DL2008PTC183297	ड्रीम लूमस एंड क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
133	U74899DL1985PTC021632	एच के एम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
134	U51103DL2008PTC179323	ट्राई टेक एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
135	U72900DL2000PLC105009	जीओ इन्फोस्यूटेम् लिमिटेड
136	U45200DL2008PTC177222	भुविनुटेक प्राइवेट लिमिटेड
137	U74999DL2005PTC136335	प्राइमडिस्टेक प्राइवेट लिमिटेड
138	U74140DL2008PTC182007	जश्र कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
139	U45200DL2008PTC179415	एकम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
140	U74899DL1991PTC045540	अंकिता अप्परेल्स प्राइवेट लिमिटेड
141	U51109DL2007PTC163683	ट्रेंडी दिवा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
142	U31909DL1997PTC089542	श्री पारस विद्युत प्राइवेट लिमिटेड

क्रमांक संख्या	CIN	कंपनी नाम
143	U55101HR2012PTC045087	देसी बेली फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
144	U17309DL2011PTC229308	तनु एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
145	U74899DL1993PTC056523	फ़ॉर्नेक्स ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
146	U52390DL2013PTC247694	आरुषि एंड मोरट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
147	U74899DL1991PTC045540	अंकिता अप्परेल्स प्राइवेट लिमिटेड
148	U72900DL2011PTC221678	बिजलॉजिक इन्फोसस्टेम्स प्राइवेट लिमिटेड
149	U74900DL2009PTC190591	इंफिनिटी स्टील प्राइवेट लिमिटेड
150	U45200DL2007ULT159190	कालका इंक्रेटेक प्राइवेट लिमिटेड
151	U74899DL1991PTC045540	अंकिता अप्परेल्स प्राइवेट लिमिटेड
152	U45400DL2010PTC206038	आर एम आर रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड
153	U74999DL2004PTC130411	जी जी क्रीऐशंस प्राइवेट लिमिटेड
154	U65992DL2001PTC112729	जो जी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
155	U74140HR2007PTC036814	भुवन भास्कर प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

प्रेम लाल भंजूराम मलिक

उप कंपनी पंजीयक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर-208002, दिनांक 15 दिसम्बर 2014

संख्या : 560(5)/उ.ख./621—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कोई प्रतिकूल कारण न दर्शाये जाने पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अन्तर्गत एक महीने की अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

Srl No.	Name Of The Company	CIN No.	SRN No.
1	बिसडो इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	U74999UR2011PTC000003	C29643350
2.	संजय हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	U85100UR2010PTC033165	C30450191
3	मसूरी नेचर क्लब प्राइवेट लिमिटेड	U93000UR2012PTC000126	C30803928
4.	अनुजासॉफ्ट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	U72300UR2009PTC032779	C31643794
5.	पर्वातॉचल मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	U74900UR2009PTC033018	C31840069
6	त्रिशूल फिलामेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	U25201UR1997PTC022690	C25476029
7	ऋषिकेश हालिसटिक हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड	U55101UR2012PTC000439	C25689316
8	एडवांस हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड	U85195UR2008PTC032705	C23857360
9	उत्तराखण्ड कन्सयूमर सर्विसेज सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड	U93090UR2001PTC026104	C20639902

Srl No.	Name Of The Company	CIN No.	SRN No.
10	आकशेड इन्फ्राजोन प्राइवेट लिमिटेड	U45400UR2013PTC000713	C22684971
11	रेशनल सिक्यूरिटी प्राइवेट लिमिटेड	U93000UR2007PTC032396	C21367644
12	एमनेक्सटइ सोल्यूशनस प्राइवेट लिमिटेड	U74900UR2009PTC032815	C27347491

एस पी कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार एवं
शासकीय समापक,
उत्तराखण्ड

कंपनी अधिनियम, १९५६ और निम्नलिखित कंपनियों के मामले में

बैंगलुरु, दिनांक 15 दिसंबर 2014

सं. आरओसी / ५६० / (५) FTE- नोटिस एतद्वारा धारा उप के अनुसार दिया जाता है (5) खंड के बम से नीचे के नाम उल्लेख किया है कि कंपनी अधिनियम, १९५६ की ५६०, कंपनियों नंबर 1 – 4 रजिस्टर से काटा दिया गया है और उक्त कंपनियां विघटित हो गई हैं : -

सी.नो.	सीन	कंपनी नामे
1	U74999KA2011PTC059366	अवतार फिनमैनेटेक प्राइवेट लिमिटेड
2	U45209KA2011PTC057008	भारती इन्फ्राडेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड
3	U45205KA2013PTC070112	अभ्युदय नेस्टलिंग प्राइवेट लिमिटेड
4	U14102KA2004PTC034783	लिविंगस्टोन एक्सीम प्राइवेट लिमिटेड

कीर्ति तेज एन
अस्ट. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज
कर्नाटक

कंपनी अधिनियम, १९५६ और निम्नलिखित कंपनियों के मामले में

बैंगलुरु, दिनांक 17 दिसंबर 2014

सं. आरओसी / ५६० / (५) FTE- नोटिस एतद्वारा धारा उप के अनुसार दिया जाता है (5) खंड के बम से नीचे के नाम उल्लेख किया है कि कंपनी अधिनियम, १९५६ की ५६०, कंपनियों नंबर 1 – 25 रजिस्टर से काटा दिया गया है और उक्त कंपनियां विघटित हो गई हैं : -

सी.नो.	सीन	कंपनी नामे
1	U32105KA2008PTC045985	अरिगामी सेमीकंडक्टर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
2	U65993KA1995PTC018224	मधुलिमा इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
3	U45201KA1995PTC018924	एक्ससैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4	U40101KA2009PTC051911	ओरा ग्रीन एनर्जीस प्राइवेट लिमिटेड
5	U72200KA2010FTC055682	कितवेयर टेक्नोलॉजीस इंडिय प्राइवेट लिमिटेड
6	U40200KA2011PTC060878	गदग स्पेशियलिटी गैसेस प्राइवेट लिमिटेड
7	U72200KA2012PTC064258	एक्स2पिएन इ-लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड
8	U14102KA2002PTC031327	ट्राइटन मोन्यूमेंट वर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

सी.नो.	सीन	कंपनी नामे
9	U27100KA2008PTC048037	जी .वी. एस स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
10	U13100KA2008PTC046989	बुनटाक माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
11	U51420KA2008PTC044941	सुधाकर माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
12	U14103KA2003PTC031476	आई एम जी सी ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड
13	U14101KA2002PTC030962	एस. आर. ई. ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
14	U40107KA2010PTC053470	ओजस एनर्जी कर्नाटक प्राइवेट लिमिटेड
15	U00270KA1995PTC017927	श्री तिरुमला कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड
16	U21014KA1988PTC009706	हिमालय कोरुगेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
17	U74900KA2011PTC057293	वीसीबी एनवीरोटेक प्राइवेट लिमिटेड
18	U74900KA2011PTC058268	राघवेन्द्र क्लीनिंग सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
19	U72900KA2007PTC042261	वी-ज़ोन बिज़नेस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
20	U25202KA2005PTC036548	सुपरटेक्स ब्राप्स प्राइवेट लिमिटेड
21	U72900KA2011PTC059641	सीडीएस इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
22	U31908KA2011PTC058314	रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
23	U00082KA1994PTC016789	डीओ डवैचर्स प्राइवेट लिमिटेड
24	U72900KA2012PTC064437	मेडली सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
25	U72200KA2006PTC041009	आर्यभटा इ-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड

के गीता महालक्ष्मी
डेप्युटी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज
कर्नाटक

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 15th December 2014

No. F.20/2014/SCA(1)—Mrs. Usha Sharma, Assistant Registrar has retired from the service of the Registry of the Supreme Court of India with effect from the afternoon of November 30, 2014 on her attaining the age of superannuation.

BADR-UL-ISLAM
Deputy Registrar (Admn.I)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 4th December 2014

No. DP/Pers.I/2014/4651/3/85/2012—Shri Ranjit Sinha, IPS (BH:1974) has relinquished the charge of the office of Director, Delhi Special Police Establishment (Central Bureau of Investigation) with effect from the afternoon of 02.12.2014 on superannuation and completion of tenure as Director, Delhi Special Police Establishment (Central Bureau of Investigation).

DEEPIKA SURI
Deputy Director (Pers.)

No. DP/Pers.I/2014/4645/3/59/2013—The President of India is pleased to appoint Shri Anil Kumar Sinha, IPS (BH:1979) as Director, Delhi Special Police Establishment, Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of 3.12.2014 for a period of two years upto 2.12.2016.

DEEPIKA SURI
Deputy Director (Pers.)

The 12th December 2014

CORRIGENDUM

No. DP/Pers(M)/2014/4555/A-34012/12/2014—The date of joining as Office Superintendent of Shri P. Kandaswamy in Notification dated 25-11-2014 may please be read as “31-12-2012” instead of “31-12-2013”.

DEEPIKA SURI
Deputy Director (Pers.)

New Delhi-110003, the 16th December 2014

No. DPPERS.I2014/4753/3/2/85.—Shri R. Soundarajan, DLA, CBI, Mumbai Zone has relinquished the charge of the post of Deputy Legal Advisor, CBI with effect from the afternoon of 30.09.2014 on attaining the age of superannuation.

D. P. SINGH
Admin. Officer (Pers.)

No. DPPERS.I2014/4754/3/9/89.—Shri K. Sudhakar, Additional Legal Advisor, CBI, STF, New Delhi has relinquished the charge of the post of Additional Legal Advisor, CBI with effect from the afternoon of 31.10.2014 on attaining the age of superannuation.

D. P. SINGH
Admin. Officer (Pers.)

No. DPPERS.I2014/4755/3/10/89.—Shri Mohinder Singh, Additional Legal Advisor, CBI, STF, New Delhi has relinquished the charge of the post of Additional Legal Advisor with effect from the afternoon of 30.11.2014 on attaining the age of superannuation.

D. P. SINGH
Admin. Officer (Pers.)

No. DPPERS.I2014/4756/3/53/95.—Shri Parth Tapaswi, Additional Legal Advisor, CBI, BS&FC, New Delhi has relinquished the charge of the post of Additional Legal Advisor with effect from the forenoon of 28.11.2014 on voluntary retirement.

D. P. SINGH
Admin. Officer (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110003, the 9th September 2014

No. D.V-1/2014-Pers(A/C)—Consequent on acceptance of request for withdrawal of resignation from service, Shri Vivek Sarswat, Assistant Commandant (IRLA- 7196) of this force has reported at Group Centre, CRPF, Bantalab, on 25/07/2014 (FN) and taken over the charge of his post on the same date. Accordingly, he has been taken on the strength of this Force from the same date i.e. wef. 25/07/2014 (FN).

M. C. PANWAR
DIG (Pers)

The 22nd September 2014

No. A.VI-1/2014-Pers(A/C)—Consequent on his selection to Group-“A” post in Indian Customs & Central Excise Service through Civil Services Examination-2013 and acceptance of Technical Resignation from service of CRPF, Shri Chavan Swachhand Uttamrao, Assistant Commandant (Trainee) (IRLA-10091) of 45th (A) Batch of this Force relinquished the charge of his post on 09/09/2014 (AN). Accordingly, he has been struck off the strength of this Force with effect from the same date i.e. 09/09/2014 (AN).

M. C. PANWAR
DIG (Pers)

The 9th October 2014

No. A.VI.1/2014-PERS(AC)— The President is pleased to appoint the following selected candidates of CAPF(A/C) Exam-2012 conducted by UPSC, as Assistant Commandants in Central Reserve Police Force in the pay scale of Rs.15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/- in a temporary capacity until further orders against the overall strength of Central Reserve Police Force :—

S/No.	Roll No.	Name	Date of Reporting
1.	128529	Shri C. Kannan	24/08/14 (FN)
2.	193152	Shri Navish Kumar	25/08/14 (FN)
3.	256901	Shri Avnesh Kumar Nigam	25/08/14 (FN)
4.	039545	Shri Avinash Tripathi	25/08/14 (FN)
5.	145889	Shri Rakesh Kumar	25/08/14 (AN)
6.	174783	Shri Sandeep Kumar Hati	25/08/14 (AN)
7.	101925	Shri Mangronger Jamir	25/08/14 (AN)
8.	035651	Miss Parul	25/08/14 (AN)
9.	067016	Shri Vikas Singh	25/08/14 (AN)
10.	132838	Shri Shashank Dongre	26/08/14 (FN)
11.	028164	Shri Mohamed Aslam S	26/08/14 (FN)
12.	032703	Shri Satendra Pratap Singh	26/08/14 (AN)
13.	165356	Shri Kheteshwar Choudhary	26/08/14 (AN)
14.	005152	Shri Sahil Chowdhry	27/08/14 (FN)

S/No.	Roll No.	Name	Date of Reporting
15.	136859	Shri Mitesh Jain	27/08/14 (FN)
16.	066601	Shri Prateek Gulia	27/08/14 (FN)
17.	207402	Shri Suresh Chand Yadav	27/08/14 (FN)
18.	019551	Shri Kurve Sarang Vinayakrao	27/08/14 (FN)
19.	103532	Shri Ashish Kumar Patel	27/08/14 (AN)
20.	025707	Shri Ankush Chauhan	27/08/14 (AN)
21.	030099	Shri Bhushan Uikey	27/08/14 (AN)
22.	004215	Shri G.Rakesh Nirmal	27/08/14 (AN)
23.	028622	Shri Madhusudhan	28/08/14 (FN)
24.	237088	Shri Saurabh Kumar Verma	28/08/14 (FN)
25.	051214	Shri Vinay Nayaka R	28/08/14 (FN)
26.	112285	Shri Avadhesh Kumar Singh	28/08/14 (FN)
27.	189464	Shri Abhishek Kumar Dwivedi	28/08/14 (FN)
28.	233243	Shri Pradeep T	28/08/14 (FN)
29.	067174	Shri Gokul Kumar K	28/08/14 (AN)
30.	101691	Shri P. Athungo Odyuo	28/08/14 (AN)
31.	016077	Shri Nirmal Kumar	28/08/14 (AN)
32.	159410	Shri Himanshu Negi	28/08/14 (AN)
33.	086379	Shri Inoka K Jimomi	28/08/14 (AN)
34.	012206	Shri Cibi Sudhan. E. R	30/08/14 (AN)
35.	075937	Shri Tonghotin Pao Lumpheng	18/09/14 (AN)

2. They have reported to CRPF Academy, Kadarpur (Gurgaon) for training and have taken over the charge of their post on the dates shown against their names.

M. C. PANWAR
DIG (Pers)

The 13th November 2014

No. D.V-1/2014-Pers(A/C)—Consequent on acceptance of notice dated 17/06/2014 for Resignation from service, Shri Santosh Kumar, Assistant Commandant (IRLA-7034) of 136 Bn, CRPF relinquished the charge of his post on the afternoon of 31/10/2014. Accordingly, he has been struck off the strength of this Force with effect from the same date i.e. 31/10/2014 (A.N).

M. C. PANWAR
DIG (Pers)

The 11th December 2014

No. D.V-1/2014-Pers(A/C)—Consequent on acceptance of notice dated 15/10/2014 for Resignation from service, Shri Himanshu Negi, Assistant Commandant (Trainee) (IRLA-10406) of 46(B) batch DAGO CRPF relinquished the charge of his post on the afternoon of 01/12/2014. Accordingly, he has been struck off the strength of this Force with effect from the same date i.e. 01/12/2014(A.N).

M. C. PANWAR
DIG (Pers)

No. D.V-1/2014-Pers(A/C)—Consequent on acceptance of notice dated 26/07/2014 for Resignation from service, Shri Rajan Chaudhary, Assistant Commandant (Trainee) (IRLA-10216) of 45(B) batch DAGO, CRPF relinquished the charge of his post on the afternoon of 30/09/2014. Accordingly, he has been struck off the strength of this Force with effect from the same date i.e. 30/09/2014 (A.N).

M. C. PANWAR
DIG (Pers)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(GENERAL & SOCIAL SECTOR AUDIT), RAJASTHAN

Jaipur, the 4th December 2014

No. Admn.-II/Gazette Notification/R-12063/122 /2014/D581—The following Group 'B' Gazetted Officer retired on superannuation from Government service from the date shown against their name :

S/Shri

1. K. Thomas Retired on superannuation wef. 30.11.2014 (AN)
Senior Private Secretary

Sd./- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)
DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad, the 15th December 2014

No. A-19024/8/2014-A.I—On the recommendations of Departmental Promotion Committee (Group-B) and with the approval of the Competent Authority, Shri R.U. Roy is appointed as Senior Chemist in Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-) + Grade Pay of Rs. 4200/- in the Directorate of Marketing & Inspection, Regional Agmark Laboratory, Kolkata with effect from 1st December, 2014 (Forenoon) and until further orders.

L. ANANTH
Under Secretary

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 11th December 2014

No. 93/Notification./I&II/OPA-163464—The Officers whose names are mentioned in column 2 of the table below, relinquished charge of the post held by them, as indicated in column 3 with effect from the dates mentioned in column 4 consequent on the event mentioned in column 5 thereof :—

Sr. No.	Name of the officer	Relinquished the charge of the post of	Date of relinquishment	Event
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Shri Tallapragada Suryanarayana Murthy	SO/E	07/10/2014	Death
2	Shri Nandan Jha	SO/C	19/11/2014(AN)	Resignation
3	Dr. Ratnakar K. Kulkarni	SO/H	30/11/2014(AN)	Superannuation
4	Dr. V. Ramachandran	SO/G	30/11/2014(AN)	Superannuation
5	Shri N.B. Khedekar	SO/E	30/11/2014(AN)	Superannuation
6	Shri Harvinderpal Singh	SO/H+	30/11/2014(AN)	Superannuation
7	Shri K. K. Abdulla	OS	30/11/2014(AN)	Superannuation

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Dr. Lalit Mohan Gantayet	DS	30/11/2014(AN)	Retirement after four years Extension of Service
9	Shri Jose P. Gervasis	SO/H+	30/11/2014(AN)	Superannuation
10	Shri Sandip Kumar Ghosh	DS	30/11/2014(AN)	Retirement after four years Extension of Service
11	Dr. Vinod Kumar Suri	OS	30/11/2014(AN)	Retirement after four years Extension of Service
12	Shri P. Sankarankutty	SO/G	30/11/2014(AN)	Superannuation
13	Shri Raja Ram Singh Yadav	DS	30/11/2014(AN)	Retirement after two years Extension of Service
14	Shri Anilkumar Thippokkath Vijayan	SO/G	30/11/2014(AN)	Superannuation

H. MISHRA
Controller

No. 93/Notification./I&II/OPA-163464—The Cadre Officers whose names are mentioned in column 2 of the table below, relinquished charge of the post held by them, as indicated in column 3 with effect from the dates mentioned in column 4 consequent on the event mentioned in column 5 thereof :—

Sr. No.	Name of the officer	Relinquished the charge of the post of	Date of relinquishment	Event
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Shri P.V. Sreedharan	Senior Private Secretary	30/11/2014(AN)	Superannuation
2	Smt. Indira B. Prakash	Senior Private Secretary	30/11/2014(AN)	Superannuation
3	Smt. Meera Ananthan	Senior Private Secretary	30/11/2014(AN)	Superannuation
4	Smt. Geeta P. Vaidya	Senior Private Secretary	30/11/2014(AN)	Superannuation

H. MISHRA
Controller

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 2nd December 2014

No. 6(2682)/14-Adm/ 15175—Additional Secretary, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri Abhilash Kidave, Assistant Personnel Officer [Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) with Grade Pay Rs. 4,800/-], Heavy Water Plant, (Manuguru), as Section Officer [Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) with Grade Pay Rs. 4,800/-], in DAE, Mumbai with effect from the forenoon of 3rd November, 2014.

K. P. S. PILLAI
Under Secretary

DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Mumbai-400 094, the 3rd December 2014

No. DPS/07011/Rectt./4420—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri Sanjay D.Patil [Emp. No. 625], Sr. Purchase Assistant (Pay Band -2, ₹ 9,300—34,800/- + Grade Pay ₹ 4,200/-), Central Purchase Unit, CPU, Mumbai as Assistant Purchase Officer in the Pay Band -2, ₹ 9,300—34,800/- + Grade Pay ₹ 4,800/-, in the same unit with effect from the forenoon of 20th November, 2014 (FN), until further orders.

S.Y.KAMBLE
Administrative Officer-III

No. DPS/07011/Rectt./4425—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoints Smt. Shobhana Raman [Emp. No. 265], Sr. Purchase Assistant (Pay Band -2, ₹ 9,300—34,800/- + Grade Pay ₹ 4,200/-), Central Purchase Unit, CPU, Mumbai as Assistant Purchase Officer in the Pay Band -2, ₹ 9,300—34,800/- + Grade Pay ₹ 4,800/-, in the same unit with effect from the forenoon of 20th November, 2014 (FN), until further orders.

S.Y.KAMBLE
Administrative Officer-III

No. DPS/07011/Rectt./4430—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoints Smt. Margaret M.D'costa [Emp. No. 741], Sr. Purchase Assistant (Pay Band -2, ₹ 9,300—34,800/- + Grade Pay ₹ 4,200/-), Central Purchase Unit, CPU, Mumbai as Assistant Purchase Officer in the (Pay Band -2, ₹ 9,300—34,800/- + Grade Pay ₹ 4,800/-, in the same unit with effect from the forenoon of 20th November, 2014 (FN), until further orders.

S.Y.KAMBLE
Administrative Officer-III

No. DPS/07011/Rectt./4433—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoints Smt. Harshala D.Koli [Emp. No. 696], Purchase Assistant (Pay Band -2, ₹ 9,300—34,800/- + Grade Pay ₹ 4,200/-), Central Purchase Unit, CPU, Mumbai, as Assistant Purchase Officer in the Pay Band -2, ₹ 9,300—34,800/- + Grade Pay ₹ 4,800/-, in the same unit with effect from the forenoon of 20th November, 2014, (FN) until further orders.

S.Y.KAMBLE
Administrative Officer-III

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110 003, the 1st September 2014

No. A-32013/01/2014-E.II.—On the basis of the recommendation of the Union Public Service Commission, the President, hereby, appoints Shri Maneesh Kumar, presently holding the post of Director of Air Safety on ad-hoc basis, as Director of Air Safety on regular basis in the Office of the Director General of Civil Aviation, Headquarters, New Delhi in PB-4 of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from the forenoon of the 08th August, 2014 and until further orders.

GOPAL SINGH
Deputy Director of Administration

No. A-32013/10/2013-E.II.—On the basis of the recommendations of the Union Public Service Commission, the President, is hereby appoints the following officers as Director of Operations, on regular basis, in the Office of the Director General of Civil Aviation, in PB-4 of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from the date mentioned against their names and until further orders.

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| (1) Shri Bharat Bhushan | 11.07.2014 (FN) |
| (2) Shri Dinesh Chand Sharma | 11.07.2014 (FN) |
| (3) Shri Manoj Tulsiram Bokade | 11.08.2014 (FN) |
| (4) Shri Ashutosh Vasistha | 11.08.2014 (FN) |

GOPAL SINGH
Deputy Director of Administration

The 3rd September 2014

No. A-32013/03/2013-E.II.—On the basis of the recommendations of the Union Public Service Commission and with the approval of the Appointment Committee of the Cabinet, the President, hereby appoints the following officers as Joint Director General, on regular basis, in the Office of the Director General of Civil Aviation, in PB-4 of Rs. 37,400—6,7000/- plus Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from the date mentioned against their names and until further orders.

- | | | |
|-----|---------------------|-----------------|
| (1) | Shri Arvind Sardana | 19.08.2014 (FN) |
| (2) | Shri Lalit Gupta | 19.08.2014 (FN) |

GOPAL SINGH
Deputy Director of Administration

The 5th September 2014

No. A-32013/09/2014-E.II.—The President is pleased to appoint the following Deputy Director of Operations in DGCA as Director of Operations on ad-hoc basis in PB-4, Rs. 37,400—6,7000/- plus Grade Pay Rs. 8,700/- w.e.f. 04.09.2014 for a period of one year or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier :

- | | |
|-----|-----------------------------|
| (1) | Shri Ved Prakash |
| (2) | Shri Virendra Prakash Singh |

GOPAL SINGH
Deputy Director of Administration

The 25th November 2014

No. A-32013/05/2014-E.II.—On the basis of the recommendation of the Union Public Service Commission, the President, hereby, appoints Smt. Suvrita Saxena, as Deputy Director of Operations on regular basis in the Office of the Director General of Civil Aviation in PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from the forenoon of the 29th September, 2014 and until further orders.

GOPAL SINGH
Deputy Director of Administration

The 2nd Demember 2014

No. A-32013/02/2014-E.II.—On the basis of the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint the following regular Assistant Director of Air Safety as Deputy Director of Air Safety, on regular basis, in the Office of the Director General of Civil Aviation, in PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from the date mentioned against their names and until further orders.

- | | | |
|-----|-------------------|-----------------|
| (1) | Shri Sanit Kumar | 25.11.2014 (FN) |
| (2) | Shri A. X. Joseph | 24.11.2014 (FN) |

GOPAL SINGH
Deputy Director of Administration

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

OFFICE OF REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of companies Act 1956 and of the following Companies

New Delhi-110019, the 15th December 2014

No. ROC Delhi/560(5)/FTE-2011/9814—Notice is hereby given under subsection (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off from the register and the said companies are dissolved.

SL No.	CIN	COMPANY_NAME
1	U13203DL2011PTC228617	PRECIOUS EXTRACTS PRIVATE LIMITED
2	U40102DL2006PLC154623	DCM SHRIRAM THERMAL ENERGY LIMITED
3	U40109DL2007PLC165632	DCM SHRIRAM ENERGY AND INFRASTRUCTURE LIMITED

SL No.	CIN	COMPANY_NAME
4	U45207DL2008PLC180959	DCM SHRIRAM HYDRO ENERGY LIMITED
5	U40300DL2009PTC191273	MATHIYAN POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
6	U51909DL2005PTC133879	TIRANGA TRADE AND SERVICES PRIVATE LIMITED
7	U25190DL2011PTC218280	CRATO PLAST INDIA PRIVATE LIMITED
8	U52100DL2007PTC162123	MEGNA RETAIL PRIVATE LIMITED
9	U51909DL2011PTC228889	TRANSREGIONS KK PRIVATE LIMITED
10	U45200DL2012PTC243498	ASAAN INFRATECH PRIVATE LIMITED
11	U74140DL2011PTC216836	VK RESOURCING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
12	U92490HR2011PTC043078	PROFESSIONAL BUSINESS WRITERS PRIVATE LIMITED
13	U51433DL2005PTC143373	C Y POLYMERS PRIVATE LIMITED
14	U45201DL2008PTC184418	S C T PROJECTS PRIVATE LIMITED
15	U45200DL2012PTC236113	ARTI K INFRABUILD PRIVATE LIMITED
16	U74120DL2008PTC175878	SANRI HERBALS PRIVATE LIMITED
17	U55101DL2013PTC259230	TRIVOLI HOTELS PRIVATE LIMITED
18	U74900DL2009PTC190775	DATAWORKS TRAVEL & MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
19	U74899DL1989PTC036668	OMNI LEASING PRIVATE LIMITED
20	U85191DL2006PTC151440	A-ONE FUMIGATION AND DISINFECTION SERVICES PRIVATE LIMITED
21	U70200DL2011PTC218118	INVESTORS CLINIC INTERIORS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
22	U72200DL1996PTC080308	UPL SOFTWARE PRIVATE LIMITED
23	U74899DL1988PTC032307	ADHITE ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
24	U55101DL2011PTC218121	TALLI ENTERTAINMENT CLINIC PRIVATE LIMITED
25	U45400DL2007PTC168910	BIRCH BUILDCON PRIVATE LIMITED
26	U72200DL2007PTC157752	DIGITAL E-PATHSHALA PRIVATE LIMITED
27	U92142DL2008PTC179525	TRAM DESIGN STUDIO PRIVATE LIMITED
28	U67190DL2013PTC250155	SHRI LEELA INVESTMENT ADVISORS PRIVATE LIMITED
29	U45400DL2007PTC162313	PINK PROJECTS PRIVATE LIMITED
30	U36996DL2008PTC174912	DKRG JEWELLARS PRIVATE LIMITED
31	U74140DL2008PTC182481	EXCEL INSURANCE OUTSOURCING PRIVATE LIMITED
32	U36996DL2008PTC174965	HRPC JEWELLARS PRIVATE LIMITED
33	U51909DL2009PTC195616	GREEN SHOOTS TRADING PRIVATE LIMITED
34	U51900DL2011PTC212928	ANRO ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
35	U15549DL2011PTC218984	PIPA FOODS & BEVERAGES PRIVATE LIMITED
36	U34300DL1999PTC102540	SABHARWAL ENTERPRISES PRIVATE LIMITED.
37	U92419DL2008PTC177831	MAGIC GAMING PRIVATE LIMITED
38	U70101DL1997PTC085888	CHANDER GHANTETI PROPERTIES PRIVATE LIMITED
39	U74999DL2011PTC212492	SPECIALITIES GLASS INDIA PRIVATE LIMITED
40	U51909DL2003PLC122932	WORLDWIDE IMPEX LIMITED

SL No.	CIN	COMPANY_NAME
41	U24239DL2003PTC121290	SONA AYURVEDIC COMPANY PRIVATE LIMITED
42	U72300DL2007PTC171842	AVS INFRATECH PRIVATE LIMITED
43	U74899DL1981PTC012264	MANJUL ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
44	U51909DL2002PTC114381	EXTREME MARKETING INDIA PRIVATE LIMITED
45	U72300DL2010PTC209092	STEPONE INFORMATION SERVICES PRIVATE LIMITED
46	U45204DL2009PTC190914	SDS PROJECTS PRIVATE LIMITED
47	U72900DL2009PTC190303	TARCHIA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
48	U74140DL2010PTC211006	KEYSTONE FORENSIC SERVICES PRIVATE LIMITED
49	U51103DL2012PTC234920	EMMY DON IMPEX PRIVATE LIMITED
50	U29248DL2008PTC177545	KAPSTEL ENGINEERING PRIVATE LIMITED
51	U93000HR2008PTC038548	ARRY TRANSLATION SERVICES PRIVATE LIMITED
52	U70200DL2012PTC236730	ICEBERG ESTATES PRIVATE LIMITED
53	U70200DL2012PTC236681	ULTIMATE BUILDTECH PRIVATE LIMITED
54	U74140DL2008PTC173332	ESS SOFTWARE DISTRIBUTION & CONSULTING PRIVATE LIMITED
55	U70109DL2010PTC205710	SAGARSAKSHI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
56	U85100DL2008PTC181485	STAR HEALTH VACATIONS & HEALTH TRAVELS PRIVATE LIMITED
57	U72200DL2002PTC116737	SUPER SEVEN IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
58	U74899DL1994PTC063796	STUDIO CREATIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
59	U74999DL2007PTC159852	ENKITA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
60	U51909DL2011PTC217458	BHANU FASHIONS PRIVATE LIMITED
61	U45400HR2007PTC037060	ENKITA EXPANSION & DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
62	U63000DL2013PTC253012	ENJOY 2 TRAVEL PRIVATE LIMITED
63	U74999DL2013PTC255971	MIRCHI INFOTAINMENT PRIVATE LIMITED
64	U85200DL2013PTC257875	VETCHEM PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
65	U15549DL2011PTC213865	DESINN FOODS AND BEVERAGES PRIVATE LIMITED
66	U74899DL1987PTC029442	ROHINI DYEING PRIVATE LIMITED
67	U74900DL2009PTC193816	KKM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
68	U15490DL2013PTC247411	A.K. BEHERA BEVERAGES PRIVATE LIMITED
69	U74999DL2010PTC207411	BHOMIYA BANGLES AND JEWELLERS PRIVATE LIMITED
70	U80902DL2007PTC170965	B AND V EDUTECH PRIVATE LIMITED
71	U70101HR2010PTC041483	ADITI SUPERSTRUCTURES PRIVATE LIMITED
72	U64201DL2000PTC106987	ALTERNATIVE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
73	U72900DL2012PTC237613	SOFTMAX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
74	U72900DL2011PTC214224	RPM DATA PROCESSING PRIVATE LIMITED
75	U45300DL2011PTC228031	RAJSHREE BUILDWELL PRIVATE LIMITED
76	U74899DL1984PTC018108	TOCOMA GRAPHICS PRIVATE LTD
77	U92120DL2005PTC140045	ESQUIRE STUDIOS PRIVATE LIMITED

SL No.	CIN	COMPANY_NAME
78	U74120DL2009PTC186870	PIONEER COACHING INSTITUTE PRIVATE LIMITED
79	U55209DL2011PTC212738	DSR TEA PALACE PRIVATE LIMITED
80	U52590HR2011PTC043983	REAL SURE SUCCESS MARKETING PRIVATE LIMITED
81	U74899DL1997PTC091360	USD WELD PRIVATE LIMITED
82	U31900HR2012PTC047145	SHOLPHIN INDIA PRIVATE LIMITED
83	U74140DL2013PTC262385	MVD TECHNICAL SERVICES PRIVATE LIMITED
84	U55101DL2004PTC126054	BENNETA HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
85	U63013DL2014PTC266572	SKYRICH FREIGHT PRIVATE LIMITED
86	U74899DL2001PTC109239	EC EXPERT INDIA SOFTWARE PRIVATE LIMITED
87	U63040DL2010PTC200226	CARAVAN TRAILS INDIA PRIVATE LIMITED
88	U55101DL2004PTC128106	SHIVAMIKA INN PRIVATE LIMITED
89	U67120DL2011PTC219072	K S STOCK BROKERS PRIVATE LIMITED
90	U45200DL1996PTC082814	MARU PROMOTERS PRIVATE LIMITED
91	U74140DL2003PTC119757	PRETZALOGIC CONSULTING PRIVATE LIMITED
92	U74999DL2012PTC246614	BHASIN HR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
93	U45400DL2013PTC247930	XTREME HOME SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
94	U74999HR2011PTC044506	KLAUS H.R. CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
95	U70101DL1996PTC076949	IMAGE ESTATES PRIVATE LIMITED
96	U74899DL1987PTC028361	SARA CHEM SURFACTANTS PRIVATE LIMITED
97	U51909DL2011PTC228889	TRANSREGIONS KK PRIVATE LIMITED
98	U17121DL2008PTC173402	SAIRA EXPORTS PRIVATE LIMITED
99	U18101DL2006PTC149080	ORIENT ATTIRE PVT. LTD.
100	U74899DL1989PTC037044	I D FASHIONS PRIVATE LIMITED
101	U31900DL2011PTC228435	PLAZA ENER PACK PRIVATE LIMITED
102	U50101DL2004PTC124273	MGF AUTO SALES PRIVATE LIMITED
103	U17291DL2007PTC163933	ANEJA STEELS PRIVATE LIMITED
104	U74999DL2011PTC226626	INNATE PLACEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
105	U74999DL1997PTC084954	DNM STRATEGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
106	U74140DL2013PTC257164	OSR IMPEX PRIVATE LIMITED
107	U52590HR2011PTC043983	REAL SURE SUCCESS MARKETING PRIVATE LIMITED
108	U11100DL2008PTC175327	SPICE EXPLORATION PRIVATE LIMITED
109	U74999HR2011FTC042437	MSTAR INDIA PRIVATE LIMITED
110	U74120DL2008PTC175878	SANRI HERBALS PRIVATE LIMITED
111	U34300DL2004PTC129007	SATYAM SPARE PARTS PRIVATE LIMITED
112	U72200DL2012PTC242933	RSA IT SERVICES PRIVATE LIMITED
113	U51909DL2010PTC207924	PRECISION BROADCASTING & TELECOMMUNICATION PRIVATE LIMITED
114	U63040DL2010PTC206080	EKSALIFE JOURNEYS PRIVATE LIMITED

SL No.	CIN	COMPANY_NAME
115	U72200DL2012PTC244934	MANGOMAN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
116	U74899DL1991PTC043316	BIP OVERSEAS PRIVATE LIMITED
117	U29000DL2005PTC139908	DELIGHT ONLINE EDUCATION PRIVATE LIMITED
118	U24100DL2010PTC197988	INDOASIAN PETROLEUMS PRIVATE LIMITED
119	U34300HR2010PTC041059	SNG AUTOMOTIVES PRIVATE LIMITED
120	U72400DL2008PTC175193	GOAL ACHIEVERS HITECH PRIVATE LIMITED
121	U17291DL2007PTC170621	ANICON CLOTHING COMPANY PRIVATE LIMITED
122	U70109DL2011PLC212762	BHARTI LAND PROJECTS INDIA LIMITED
123	U63040DL2005PTC137730	MITWA TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
124	U74120DL2008PTC185272	AUDEAMUS FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
125	U26900DL2014PTC263700	EUROPA MARBLES PRIVATE LIMITED
126	U74999DL1991PLC043983	SHROMA TOOLS LIMITED
127	U72400DL2008PTC175193	GOAL ACHIEVERS HITECH PRIVATE LIMITED
128	U80301DL2002PTC117238	TURNING POINT EDUCATIONAL TESTING SERVICES PRIVATE LIMITED
129	U32204DL2006PTC152866	IMAGE TELECOM INDIA PRIVATE LIMITED
130	U55101DL2012PTC246201	B.BAR MUMBAI PRIVATE LIMITED
131	U01122DL1996PLC077175	CANFRA AGRO INDUSTRIES LIMITED
132	U18101DL2008PTC183297	DREAM LOOMS & CRAFTS PRIVATE LIMITED
133	U74899DL1985PTC021632	HKM FOODS PRIVATE LIMITED
134	U51103DL2008PTC179323	TRI-TECH ENERGY PRIVATE LIMITED
135	U72900DL2000PLC105009	GEO INFOSYSTEMS LIMITED
136	U45200DL2008PTC177222	BHUVI NUTECH PRIVATE LIMITED
137	U74999DL2005PTC136335	PRIME DESTTEK PRIVATE LIMITED
138	U74140DL2008PTC182007	JASHAN CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
139	U45200DL2008PTC179415	EKAM DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
140	U74899DL1991PTC045540	ANKITA APPARELS PRIVATE LIMITED
141	U51109DL2007PTC163683	TRENDY DIVVA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
142	U31909DL1997PTC089542	SHREE PARAS VIDYUT PRIVATE LIMITED
143	U55101HR2012PTC045087	DESI BELLY FOODS PRIVATE LIMITED
144	U17309DL2011PTC229308	TANU EXPORTS PRIVATE LIMITED
145	U74899DL1993PTC056523	FORNAX OVERSEAS PRIVATE LIMITED
146	U52390DL2013PTC247694	AARUSHI ANDMORE TRADING PRIVATE LIMITED
147	U74899DL1991PTC045540	ANKITA APPARELS PRIVATE LIMITED
148	U72900DL2011PTC221678	BIZLOGIC INFOSYSTEMS PRIVATE LIMITED
149	U74900DL2009PTC190591	INFINITY STEEL PRIVATE LIMITED
150	U45200DL2007ULT159190	KALKA INFRATECH PRIVATE LIMITED
151	U74899DL1991PTC045540	ANKITA APPARELS PRIVATE LIMITED
152	U45400DL2010PTC206038	RMR REALITY PRIVATE LIMITED
153	U74999DL2004PTC130411	G.G.CREATIONS PRIVATE LIMITED
154	U65992DL2001PTC112729	JOJI CHITS PRIVATE LIMITED
155	U74140HR2007PTC036814	BHUVAN BHASKAR PROJECT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED

P. L. MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of companies Act 1956 and of the following Companies

Kanpur-208002, the 15th December 2014

No. LC/560(5)/UK/621—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of one months from the date the name of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

Sr No.	Name Of The Company	CIN No.	SRN No.
1	BISDO INFOTECH PRIVATE LIMITED	U74999UR2011PTC000003	C29643350
2	SANJAY HEALTH CARE PRIVATE LIMITED	U85100UR2010PTC033165	C30450191
3	MUSSOORIE NATURE CLUB PRIVATE LIMITED	U93000UR2012PTC000126	C30803928
4	ANUJA SOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72300UR2009PTC032779	C31643794
5	PARVATANCHAL MEDIA NETWORK PRIVATE LIMITED	U74900UR2009PTC033018	C31840069
6	TRISHUL FILAMENTS PRIVATE LIMITED	U25201UR1997PTC022690	C25476029
7	RISHIKESH HOLISTIC HOSPITALITY PRIVATE LIMITED	U55101UR2012PTC000439	C25689316
8	ADVANCE HOSPITALITY PRIVATE LIMITED	U85195UR2008PTC032705	C23857360
9	UTTARAKHAND CONSUMER SERVICE CENTRE PRIVATE LIMITED	U93090UR2001PTC026104	C20639902
10	OAKSHADE INFRAZONE PRIVATE LIMITED	U45400UR2013PTC000713	C22684971
11	RATIONAL SECURITIES PRIVATE LIMITED	U93000UR2007PTC032396	C21367644
12	AIMNEXT ESOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74900UR2009PTC032815	C27347491

S. P. Kumar
Registrar of Companies-cum-Official Liquidator
Attached to High Court, Nainital, Uttarakhand

IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 1956 AND OF THE FOLLOWING COMPANIES

BANGALORE, THE 15 DECEMBER 2014

NO. ROC/560/(5) FTE—NOTICE IS HEREBY GIVEN PURSUANT TO SUB-SECTION (5) OF SECTION 560 OF THE COMPANIES ACT, 1956, THAT THE NAMES OF THE UNDER MENTIONED COMPANIES HAVE BEEN STRUCK OFF FROM THE REGISTER AND THE SAID COMPANIES STAND DISSOLVED :—

Sl.NO.	CIN	COMPANY NAME
1	U74999KA2011PTC059366	AVATAR FINMANTECH PRIVATE LIMITED
2	U45209KA2011PTC057008	BHARATHI INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED
3	U45205KA2013PTC070112	ABHYUDAYA NESTLING PRIVATE LIMITED
4	U14102KA2004PTC034783	LIVINGSTONE EXIM PRIVATE LIMITED

KEERTHI THEJ N
ASST. REGISTRAR OF COMPANIES
KARNATAKA

IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 1956 AND OF THE FOLLOWING COMPANIES

BANGALORE, THE 17 DECEMBER 2014

NO. ROC/560/(5) FTE—NOTICE IS HEREBY GIVEN PURSUANT TO SUB-SECTION (5) OF SECTION 560 OF THE COMPANIES ACT, 1956, THAT THE NAMES OF THE UNDER MENTIONED COMPANIES HAVE BEEN STRUCK OFF FROM THE REGISTER AND THE SAID COMPANIES STAND DISSOLVED :—

SI.NO.	CIN	COMPANY NAME
1	U32105KA2008PTC045985	ARIGAMI SEMICONDUCTOR SYSTEMS PRIVATE LIMITED
2	U65993KA1995PTC018224	MADHULIMA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
3	U45201KA1995PTC018924	AXCEND INDIA PRIVATE LIMITED
4	U40101KA2009PTC051911	AURA GREEN ENERGIES PRIVATE LIMITED
5	U72200KA2010FTC055682	KITWARE TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
6	U40200KA2011PTC060878	GADAG SPECIALITY GASES PRIVATE LIMITED
7	U72200KA2012PTC064258	X2PN E-LEARNING PRIVATE LIMITED
8	U14102KA2002PTC031327	TRITON MONUMENT WORKS INDIA PRIVATE LIMITED
9	U27100KA2008PTC048037	G.V.S STEELS PRIVATE LIMITED
10	U13100KA2008PTC046989	BUNTAC MINES AND MINERALS PRIVATE LIMITED
11	U51420KA2008PTC044941	SUDHAKAR MINES AND MINERALS PRIVATE LIMITED
12	U14103KA2003PTC031476	IMGC GRANITE PRIVATE LIMITED
13	U14101KA2002PTC030962	S.R.E. GRANITES PRIVATE LIMITED
14	U40107KA2010PTC053470	OJAS ENERGY KARNATAKA PRIVATE LIMITED
15	U00270KA1995PTC017927	SRI TIRUMALA CONTAINERS PRIVATE LIMITED
16	U21014KA1988PTC009706	HIMALAYA CORRUGATORS PRIVATE LIMITED
17	U74900KA2011PTC057293	VCB ENVIROTECH PRIVATE LIMITED
18	U74900KA2011PTC058268	RAGHAVENDRA CLEANING SERVICES PRIVATE LIMITED
19	U72900KA2007PTC042261	V-ZONE BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
20	U25202KA2005PTC036548	SUPERTEX WRAPS PRIVATE LIMITED
21	U72900KA2011PTC059641	CDS INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
22	U31908KA2011PTC058314	RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
23	U00082KA1994PTC016789	DIODE VENTURES PRIVATE LIMITED
24	U72900KA2012PTC064437	MEDLY SERVICES PRIVATE LIMITED
25	U72200KA2006PTC041009	ARYABHATA E-COMMERCE PRIVATE LIMITED

K. GEETHA MAHALAKSHMI
DEPUTY REGISTRAR OF COMPANIES
KARNATAKA

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015
www.dop.nic.in